

कार्यालय भू-प्रबन्ध आयुक्त व पदेन निदेशक, बन्दोबस्त राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/फा/संस्था/1/1/20/भूप्रआ/2019/ 11834

दिनांक:- 20/12/2019

कार्यालय ओदश

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(1) राज-6/06 Pt /132, दिनांक 21.11.2019 द्वारा राजस्थान राजस्व (भू-अभिलेख, भू-प्रबन्ध एवं उपनिवेशन) अधिनस्थ सेवा नियम, 2019 दिनांक 21.11.2019 से लागू कर दिया गया है। इन नियमों के अन्तर्गत इस विभाग में सृजित भू-मापक एवं निरीक्षक के पद को डाईंग केडर (Dying Cadre) घोषित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में भू-मापको के रिक्त 682 पद तथा भविष्य में पदोन्नति/सेवानिवृति से रिक्त होने वाले भू-मापको के पद को पटवारी के पद में परिवर्तित किया जाता है।

इसके साथ ही विभाग में कार्यरत भू-मापकों की निरीक्षक के पदों में पदोन्नति हेतु आवश्यक 33 पद छोड़कर शेष निरीक्षकों के रिक्त 41 पदों को निरीक्षक भू-अभिलेख (भू-प्रबन्ध संवर्ग) में परिवर्तित किया जाता है। भविष्य में भू-मापक (अमीन) के पद पर कोई भर्ती नहीं होगी। जब भी भू-मापक/निरीक्षक का पद पदोन्नति अथवा सेवानिवृति से रिक्त होगा, वह पद स्वतः ही पटवारी/निरीक्षक भू-अभिलेख में परिवर्तित हो जावेगा।

(गजानन्द शर्मा)

भू-प्रबन्ध आयुक्त  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 20/12/2019

क्रमांक/फा/समसंख्यक/ 11835 - 11862

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 2 (124) राज-1/2015 दिनांक 09.12.2019 के क्रम में।
- 2 संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3 निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
- 4 निजी सचिव भू-प्रबन्ध आयुक्त/निजी सहायक अति.भू-प्रबन्ध आयुक्त।
- 5 भू-प्रबन्ध अधिकारी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, सीकर, टोंक, कोटा, भरतपुर, बीकानेर एवं उदयपुर।
- 6 संस्था ख, II, III / सामान्य/जांच/एस.एम./डीआईएलआरएमपी/एस.टी.आई/ वर्क स्टेशन /लेखा शाखा /गोपनीय प्रकोष्ठ मुख्य कार्यालय जयपुर राजस्थान
- 7 रक्षित पत्रावली।

अति० भू-प्रबन्ध आयुक्त  
राजस्थान, जयपुर